



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103]  
No. 103]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 1984/चैत्र 13, 1906  
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 1984/CHAITRA 13, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1984  
सं. 83/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 266(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-  
शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 व उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त  
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 108/81-केन्द्रीय उत्पाद-  
शुल्क, तारीख 24 अप्रैल, 1981 का निम्नलिखित और संशोधन  
करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, —

- (1) आरम्भिक पैरा में “केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक  
अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची  
की मद सं. 17 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले  
मुद्रण और लेखन कागज (पोस्टर कागज से भिन्न)  
को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा  
गया है) उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से  
छूट देती है जितना उक्त नियमों के नियम 8 के  
उपनियम (1) के अधीन जारी की गई और तत्समय

प्रवृत्त किसी संगत अधिसूचना के साथ पठित उक्त  
माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क की दर के पचास प्रतिशत  
की दर से संगणित शुल्क से अधिक है” शब्दों,  
कोष्ठको और अंकों के स्थान पर “केन्द्रीय उत्पाद-  
शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1)  
की पहली अनुसूची की मद सं. 17 की उपमद (1)  
के अन्तर्गत आने वाले मुद्रण और लेखन कागज को  
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया  
है) उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर  
उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना  
नियमों के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी  
की गई तत्समय प्रवृत्त किसी संगत अधिसूचना के  
साथ पठित उक्त पहली अनुसूची के अधीन उक्त  
माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क की दर से अस्सी प्रतिशत  
की दर से संगणित रकम से अधिक है” शब्द,  
कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

- (2) पहले परन्तक में, खण्ड (2) में, “31 मार्च, 1984”  
अंकों और शब्दों के स्थान पर “31 मार्च, 1987”  
अंक और शब्द रखे जाएंगे ;
- (3) तीसरे परन्तक में, “तकनीकी विकास महानिदेशालय  
के विकास अधिकारी” शब्दों के स्थान पर  
“तकनीकी विकास महानिदेशालय के विकास अधिकारी”

कारी या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के महा-प्रबन्धक द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ;

- (4) तीसरे परन्तुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 से पूर्व निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2. इस अधिसूचना की कोई बात सिगरेट टिश्यू, ग्लेसीन कागज, चिकनाईसह कागज, विलेपित कागज (जिसके अन्तर्गत मोसी कागज है) और 25 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से अधिक के पदार्थ के कागज को लागू नहीं होगी।"

[फा. सं. 354/14/80-टी आर यू]  
के. एस. वेकटागिरि, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 1984

NO. 83/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 266(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 108/81-Central Excises, dated the 24th April, 1981, namely :—

In the said notification,—

- (i) in the opening paragraph, for the words, brackets and figures "printing and writing paper (other than poster paper) falling under sub-item (1) of Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) [hereinafter referred to as the said goods] from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty calculated at the rate of fifty

per cent of the rate of duty leviable on the said goods", the words, brackets and figures "paper and paper board falling under sub-item (1) of Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) [hereinafter referred to as the said goods] from so much of the duty of excise leviable thereon under section 5, of the said Act as is in excess of the amount calculated at the rate of eighty per cent of the rate of duty leviable on the said goods under the said First Schedule" shall be substituted;

- (ii) in the first proviso, in clause (ii), for the figures, letters and words "31st day of March 1984", the figures, letter and words "31st day of March, 1987" shall be substituted;
- (iii) in the third proviso, for the words "the Development Officer of the Directorate-General of Technical Development", the words "the Development Officer of the Directorate General of Technical Development or by the General Manager of the Industrial Development Bank of India" shall be substituted;
- (iv) after the third proviso and before Explanation I, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"2. Nothing contained in this notification shall apply to cigarette tissue, glassine paper, grease proof paper, coated paper (including waxed paper) paper of a substance not exceeding 25 grammes per square metre."

[F. No. 354/14/80-TRU]  
K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.